

राज्यसमाचार

पंजाब

पंजाब में चलने वाली पहली ट्रेन

- पंजाब में पहली यात्री ट्रेन 156 साल पूर्व आज के ही दिन (अप्रैल 10) चली थी। यह ट्रेन 10 अप्रैल 1862 में अमृतसर से लाहौर तक दौड़ी थी। 10 अप्रैल 1862 को पंजाब में यह पहली यात्री रेलगाड़ी अमृतसर-लाहौर के बीच दौड़ी थी। 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली रेलगाड़ी चलने के नौ साल बाद पंजाब में रेल की शुरुआत की गई थी।

केरल

वृद्ध आयोग के गठन पर विचार

- केरल में महिलाओं, युवाओं और बच्चों के अधिकार पैनल की तर्ज पर शीघ्र ही वृद्धों के मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष आयोग बन सकता है। राज्य में करीब 42 लाख वृद्ध हैं। एलडीएफ सरकार वृद्धों के विरुद्ध अत्याचार और उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उनके लिए विभिन्न पहलों को लागू करने के साथ ही पैनल के गठन की योजना पर गहनता से विचार कर रहा है।

राष्ट्रीयसमाचार

किसान ने एक ही पेड़ में उगाए 18 किस्म के आम

- कृष्णा जिले के वदलामानु गांव के 24 वर्षीय किसान कुप्पाला राम गोपाला कृष्णा ने एक ही पेड़ में 18 किस्म के आम की पैदावार की है।

नोट करने के लिए: उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में रहने वाले हाजी कालीमुल्ला खान को मेंगो मैन कहा जाता है। उन्होंने पहले से ही एक पेड़ पर 300 से अधिक किस्म के आमों की पैदावार का कारनामा किया था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें साल 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

'नीति फोरम फॉर नार्थ ईस्ट' की पहली बैठक

- 'नीति फोरम फॉर नार्थ ईस्ट' की पहली बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर जो मंथन हुआ, उसके आधार पर यह पांच सूत्रीय मिशन तय हुआ। इन राज्यों में हार्टिकल्चर, पर्यटन और बांस से निर्मित हैंडीक्राफ्ट को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही इन प्रदेशों की राजधानियों को सड़क, रेल व हवाई मार्ग से जोड़ने तथा इस क्षेत्र के शहरों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत

- नई वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है और इसे सरकार के आधिकारिक वेबसाइट नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। यह एक विस्तृत वेबसाइट है, जिसमें आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही शिकायतें दर्ज कराने के तरीके, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किये जाने वाले दौरों का विवरण दिया गया है। याचिकाकर्ता वेबसाइट पर अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी शिकायतों की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

भारत ने 'वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई' के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- भारत और वर्ल्ड एक्सपो 2020 ने आज यहां प्रदर्शनी में भारतीय मंडप लगाने के लिए भागीदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के तहत एक्सपो 2020 में लगभग एक एकड़ भू-भाग पर भारतीय मंडल लगाया जाएगा, जो 'अवसर' वर्ग में होगा। इसके तहत 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के संबंध में आर्थिक गतिविधियों और भारत में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जाएगी। अंतरिक्ष, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, दूर संचार क्षेत्रों में भारत की प्रगति को पेश किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीयसमाचार

वनातू में नहीं होगा चीन का सैन्य अड्डा

- दक्षिण प्रशांत सागर के द्वीपीय देश वनातू ने अपने यहां चीनी सैन्य अड्डा बनाने की बात से इन्कार किया है। वनातू के विदेशमंत्री राल्फ ने कहा, "देश में चीनी सैन्य अड्डा बनाने की बात हमने कभी नहीं की। हम एक तटस्थ देश हैं।"

जापान के मासाजो नानोका को दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष

- जापान के मासाजो नानोका को दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष का तमगा दिया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने होकाइदो द्वीप स्थित नानोका के निवास पर उन्हें सबसे बुजुर्ग पुरुष का प्रमाणपत्र सौंपा। गत फरवरी में स्पेन के फ्रांसिस्को नुनेज ओलिवेरा (113) के निधन के बाद नानोका को यह खिताब दिया गया है।

व्यापार समाचार

पांच राज्यों के भीतर माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल

- राज्य के भीतर यानी इंटर-स्टेट माल की ढुलाई के लिए 15 अप्रैल से ई-वे बिल की आवश्यकता होगी। इसकी शुरुआत फिलहाल पांच राज्यों से हो रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल पहली अप्रैल से अनिवार्य हो चुका है।

अमेरिका के साथ ट्रेड वार पर चीन ने दिए नरमी के संकेत

- दुनिया में ट्रेड वार के संकट के बादल छंटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ऑटो आयात पर शुल्क कम करेगा और विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

खेल समाचार**CWG 2018: रॉबर्ट पिटकेयर्न ने 79 साल की उम्र में किया डेब्यू, बनाया रेकॉर्ड**

- कनाडा के रॉबर्ट पिटकेयर्न ने 79 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू किया और वह ऐसा करने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।

CWG 2018: हीना सिद्ध ने 25 मी.पिस्टलवर्ग में जीता गोल्ड

- सिद्ध ने 25 मी. पिस्टल वर्ग में अचूक निशाना साधते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। यह भारत के लिए 11वां स्वर्ण और कुल मिलाकर 20वां पदक रहा। वहीं यह हीना का खेलों में दूसरा पदक रहा। इससे पहले उन्होंने 10 मी. एयर पिस्टल वर्ग में रजत पदक जीता था।